

BIRLA PUBLIC SCHOOL, PILANI

WINTER VACATION HOME ASSIGNMENT-2024-25

^SUBJECT –ENGLISH

CLASS-VIII

Dear Children,

We are sure that all of you would have made plans for a fun filled winter vacation. We wish that you enjoy your break with your family and friends. Freedom brings more responsibility, keeping this in mind, we have planned most of the activities for you to keep you engaged positively and your energies well directed.

General Instructions: -

- Parents are requested to motivate their child to complete the work independently. Assistance may be provided only if needed.
- The holiday homework will be graded.
- Use a small notebook to complete this assignment.

Q1. Create a Digital Advertisement of your own product (Keeping in mind lesson Industries-Geography) using your own imagination, creativity and innovativeness. Create your own content to share with the consumers to convince them to buy your product. (share the same on the link mentioned below)

<https://padlet.com/aditiarnavchoudhary/my-place-my-location-ijqf461d5n19>

Q2. Let's Create a Book Review

- ❖ Grab your favourite book and read
- ❖ Create your book review
- ❖ Send your review on the mail (aditi20003@atlas.betpilani.org)

Use the points given below: -

- *Title of the Story
- Name of the Author
- Characters
- Setting
- Short Summary (beginning, middle and end)
- My Favourite Part of the Story
- My Opinion of the Story


SUGGESTED BOOKS FOR BOOK REVIEW COMPETITION

S.N.	NAME OF BOOK	AUTHOR NAME
1.	SOCIAL HARMONY	NARENDRA MODI
2	KLARA AND THE SUN	KAZUO ISHIGURO
3	WINGS OF FIRE	APJ ABDUL KALAM
4	TURNING POINTS	APJ ABDUL KALAM
5	HARRY POTTER PART -1	J K ROWLING
6	AMRITSAR (Mrs. GANDHI LAST BATTLE)	MARK TULLY AND SATISH JACOB
7	THE ARMIES OF INDIA	G.F.MACMUNN
8	SRI RAMAYAN	M I RAJASVI
9	MAHABHARATA	C. RAJAGOPALCHARI
10	THE TIME MACHINE	H G WELLS

Q3. पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 में दी गई अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित कविता "कदम मिलाकर चलना होगा" कंठस्थ कीजिए।

Q4. निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए :-

1- अधजल गगरी छलकत जाए।



2- आम के आम गुठलियों के दाम।

3- अंधों में काना राजा।

4- अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता ।

5- अपना हाथ जगन्नाथ।

6- उलटा चोर कोतवाल को डाँटे।

7- एक अनार सौ बीमार।

8- खोदा पहाड़ निकली चुहिया।

9- ऊँची दुकान फीके पकवान।

10- नाच न जाने आँगन टेढ़ा।

Q5."Adolescence is a crucial phase of physical, emotional, and social development. Reflecting on real-life scenarios, research and analyze the following questions."

Balanced Diet in Daily Life (4 Marks)


- Observe and analyze your own daily meals for three days. Identify missing nutrients that are essential during adolescence.
- Suggest two simple and affordable changes to improve your diet based on your findings.

Hygiene Practices (3 Marks)

- Interview two friends or family members about the importance of personal hygiene during adolescence (e.g., skincare, cleanliness, etc.).
- Based on your research, propose three practical hygiene tips for adolescents to stay healthy.

Managing Peer Pressure (3 Marks)

Adolescence often involves navigating peer pressure. Think of a real-life situation (yours or someone else's) where peer pressure influenced a decision.

- 
- a. Describe the situation briefly.
 - b. Suggest two strategies to handle similar situations effectively in the future.

***** Merry Christmas & Happy New Year*****